



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 307] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 1975/श्रावण 21, 1897

No. 307] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 1975/SRAVANA 21, 1897

इस भाग में निम्न 165 संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 12th August 1975

S.O. 431(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 48 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order No. S.O. 275(E), dated the 26th June, 1975, namely:—

Amendments

In the said Order,—

(a) in clause (1),—

(i) in sub-clause (c), the word “, or” shall be inserted at the end;

(ii) after sub-clause (c), the following sub-clauses shall be inserted, namely:—

(d) the Proclamation of Emergency made by the President on the 25th day of June, 1975 under article 352 of the Constitution, or

(e) the Order made by the President on the 27th day of June, 1975 under article 359 of the Constitution, or

(f) any action taken under the provisions of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971) or under the provisions of that Act as amended by the Defence of India (Amendment) Act, 1975 (32 of 1975) or under the rules and orders made thereunder, or

(g) any “prejudicial report” as defined in clause (7) of rule 36 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971;.

- (b) in the Explanation, after the words "Chief Censor to the Government of India," the words "Additional Chief Censor to the Government of India," shall be inserted.

[No. II/14011/2/75-S&P(D. IV)]

By order and in the name of the President,

C. V. NARASIMHAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1975

का० आ० 431 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 48 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश संख्या का० आ० 275 (ई), तारीख 26 जून, 1975 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

(क) खंड (1) में,—

(i) उपखण्ड (ग) में, अन्त में "अथवा" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा;

(ii) उपखण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(घ) राष्ट्रपति द्वारा 25 जून, 1975 को की गई आपात की उद्घोषणा से संबंधित हो, अथवा

(ङ) राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 1975 को संविधान के अनुच्छेद 359 के अधीन किए गए आदेश से संबंधित हो, अथवा

(च) भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) के उपबंधों के अधीन या भारत रक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 32) द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उनके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन की गई किसी कार्रवाई से संबंधित हो, अथवा

(छ) भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 36 के खण्ड (7) में यथा परिभाषित किसी 'प्रतिकूल रिपोर्ट' से संबंधित हो”;

(ख) स्पष्टीकरण में, “भारत सरकार का मुख्य सेंसर” शब्दों के पश्चात् “भारत सरकार का अतिरिक्त मुख्य सेंसर,” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[सं० II/14011/2/75-एस० एण्ड पे० (डी IV)]

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम में,

सी० वी० नरसिम्हन, संयुक्त सचिव।